



भारत का राजपत्र The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1978/माघ 5, 1899

No. 34]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 1978/MAGHA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1978

का० आ० 37(आ०) :—आन्ध्र प्रदेश के 27 नन्दयाल और 39-वारंगल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से क्रमशः लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य श्री नीलम संजीव रेड्डी के त्याग पत्र दे दिये जाने और श्री एस० बी० गिरि की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उक्त सदन में स्थान रिक्त हो गये हैं;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्येक से एक-एक व्यक्ति द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे इन उक्त रिक्तियों को भरने के लिए तारीख 1 मार्च, 1978 (बुधवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तख्तों बताये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक-एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/आ० प्र० खो० म० 1/77(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1978

S.O. 37(E).—Whereas vacancies have occurred in the House of the People by reasons of the resignation of Shri Neelam Sanjiva Reddy and the death of Shri S. B. Giri, elected to that House from 27-Nandyal and 39-Warangal Parliamentary Constituencies in the State of Andhra Pradesh respectively;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the

220 GI/77

People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon each of the said constituencies to elect a person to fill the said vacancies before 1st March, 1978 (Wednesday), in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/AP-HP/1/77(1)]

का० आ० 38(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/आ० प्र०-खो० सं० 1/77(1), तारीख 25 जनवरी, 1977 के अनुसरण में, आन्ध्र प्रदेश राज्य के 27-नन्दयाल और 39-वारंगल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से होने वाले उप-निर्वाचनों के बारे में:—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिये
अन्तिम तारीख 1 फरवरी, 1978, (बुधवार),
- (ख) सामनिर्देशनों की संवीक्षा की
तारीख 2 फरवरी, 1978 (बृहस्पतिवार),
- (ग) अभ्यर्थितों को वापस लेने के लिये
अन्तिम तारीख 4 फरवरी, 1978 (शनिवार),
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवे-
ष्यक हो, तो मतदान होगा 25 फरवरी, 1978 (शनिवार);
और

(क) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन

समाप्त कर दिया जायेगा। 1 मार्च, 1978 (बुधवार) ;

एतद्वारा नियत करना है।

[सं० 100/आ० प्र०-लो० म०/1/77-(2)]

S.O. 38(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to each of the bye-elections to be held in 27-Nandyal and 39-Warangal parliamentary constituencies in the State of Andhra Pradesh, in pursuance of its notification No. 100/AP-HP/1/77(1) dated 25th January, 1978.—

- (a) 1 February, 1978 (Wednesday) as the last date for making nominations ;
- (b) 2 February, 1978 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 4 February, 1978 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 25 February, 1978 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) 1 March, 1978 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/AP-HP/1/77(2)]

आ० आ० 39(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/आ० प्र० लो० म०/1/77(1), तारीख 25 जनवरी, 1978 के अनुसरण में, 27-नन्द्याल और 39-वारंगल मसबोय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिये होने वाले उप-निर्वाचनों के लिये 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

आदेश ले,

[सं० 100/आ० प्र० लो० म०/1/77(3)]

पी० बी० दत्त, सचिव गवित्त,

S.O. 39(E).—In pursuance of the provisions of section 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for each of the bye-elections to the House of the People from 27-Nandyal and 39-Warangal parliamentary constituencies to be held in pursuance of its notification No. 100/AP-HP/1/77(1) dated 25 January, 1978.

By order,

[No. 100/AP-HP/1/77(3)]

P. B. DATTA, Under Secy.